

@shahjahanpupol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 28/04/2021

थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

ग्राम पंचायत चुनावी रंजिश के कारण ग्राम भुडेली में दो पक्षों के बीच बलवा एवं जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक महोदय, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान तथा त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में प्रचार प्रसार बंद होने के पश्चात शान्ति व्यवस्था एवं दुष्प्रचार करने वाले लोगों पर नजर रखने के क्रम में क्षेत्र में, श्रीमान संजीव कुमार वाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में तथा श्री परमानन्द पाण्डेय क्षेत्राधिकारी तिलहर के निकट पर्यवेक्षण में रात्रि गस्त के दौरान भ्रमणशील उ०नि० श्री पवन कुमार पाण्डेय उनकी टीम द्वारा एक बड़ा हादसा टाला गया।

दिनांक 27.04.2021 को रात्रि करीब 23.00 बजे ग्राम भुडेली में प्रधानी चुनाव के प्रत्याशी ठा० उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा निर्वाचन आयोग भारत सरकार स्तर से चुनाव प्रचार कर सायं 18.00 बजे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिये जाने के बाद रात्रि 11.00 बजे ग्राम भुडेली में जाकर चुनाव प्रचार किया गया जिसका विरोध करने पर दूसरे प्रत्याशी श्रीमती मुन्नी देवी पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया जिसमें श्रीमती मुन्नी देवी का देवर रक्षपाल व दूसरा समर्थक सर्वेश गम्भीर रूप से घायल हो गये जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया रक्षपाल CHC तिलहर से शाहजहाँपुर रेफर किया गया। इस सम्बन्ध में वादिनी श्रीमती मुन्नी देवी उपरोक्त द्वारा थाना हाजा पर मु०अ०सं० 308/21 धारा 147/148/149/452/323/324/504/506/307 भादवि बनाम 1. ठा० उपेन्द्र प्रताप सिंह 2. ठा० ज्ञानेन्द्र सिंह 3. ठा० अरूण प्रताप सिंह सर्व निवासी गण ग्राम नवादा थाना जैतीपुर जनपद शाह० 4. कल्लू पुत्र टाकन 5. नीरज पुत्र कल्लू निवासी गण ग्राम भुडेली थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर 6. ठा० नागेन्द्रपाल सिंह निवासी नामालूम व 8-10 अन्य अज्ञात लोग पंजीकृत किया गया पुलिस थाना तिलहर द्वारा त्वारित कार्यवाही करते हुए नामित मुख्य अभियुक्त डा० उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं जितेन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया तथा विवेचना से धारा 171ड/171च/188/269 भादवि का भी अपराध पाते हुए वृद्धि की गयी है। अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार किये गये अभि० गण का विवरण:-

1. ठा० उपेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र वेदपाल सिंह निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना तिलहर शाह० हाल ग्राम नवादा थाना जैतीपुर जनपद शाह०
2. जितेन्द्र पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना तिलहर शाह० हाल ग्राम नवादा थाना जैतीपुर जनपद शाह०

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 308/21 धारा 147/148/149/452/323/324/504/506/307/171ड/171च/188/269 भादवि

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हरपाल सिंह बालियान थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
2. उ०नि० श्री पवन कुमार पाण्डेय थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
3. का० 1796 सोहित कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
4. का० 1791 मोहित कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर